



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 02.10.2020

**1-थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा मिट्टी खनन कर रहे 04 ट्रैक्टर मय ट्राली मिट्टी भरे हुये सीज किये गये :**

दिनांक 01.10.2020 में थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा ग्राम तुस्याना के जंगल में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि से ट्रैक्टर ट्राली से अवैध रूप से खुदान करके मिट्टी चोरी कर रहे अभियुक्तगण जो पुलिस को देखकर मौके पर 4 ट्रैक्टर मय ट्राली मिट्टी भरी हुयी छोड कर भाग गये 4 ट्रैक्टर मय ट्राली मिट्टी भरी हुयी के कब्जे पुलिस में लिये गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना इकोटेक 3 पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 448/20 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम 1957 पंजीकृत किया गया ।

### **बरामदगी का विवरण -**

1. ट्रैक्टर आईसर 380 रजि0 न0 UP16BU2138, चैसिस न0 926113145395 व इंजन न0 S325J07279 ।
2. ट्रैक्टरसोनारिका इन्टरनेशनल डी आई 750- III रजि0 न0 UP16CP1214, चैसिस न0 BZZDH906840S3 व इंजन न0 4100EL04A902609F16 ।
3. ट्रैक्टर आईसर 380 रजि0 न0 UP16CH8019, चैसिस न0928013137827 व इंजन न0 S325K22733 ।
4. ट्रैक्टर सुपर प्लस आईसर 333 रजि0 न0 UP16CK1626, चैसिस न0 928214151475 इंजन न0 S324E93918 ।

## 5.4 ट्राली मिट्टी भरी हुयी



### 2-थाना बिसरख पुलिस द्वारा दोहरे हत्याकांड के मास्टर माइंड 02 अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनांक 02.10.2020 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा दोहरे हत्याकांड के मास्टर माइंड अभियुक्त 1. रमेश उर्फ बलुसी पुत्र बलवान नि० भगवतीपुर थाना लखमाजरा जिला रोहतक हरियाणा 2. निरजंन उर्फ निन्जो पंडित पुत्र प्रवीण कुमार नि० पन्हेडा कला थाना छायासा फरीदाबाद हरियाणा को कैपशुल कट थाना क्षेत्र बिसरख के पास से गिरफ्तार किया गया ।

### घटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूर्व की रंजिश तथा दोस्त कृष्णा की हत्या का बदला लेने की नियत से मृतक दोस्त कृष्णा के भाई मोहित तथा फुफा सुरेश के साथ षडयन्त्र रचकर साथी शूटरो टेकचन्द ,डीलर उर्फ दयाचन्द उर्फ काली तथा ओमवीर पुत्र रामकिशन नि०- सिलोथी थाना सदर बहादुरगढ जिला झझर हरियाणा ने अपने साथियों के साथ मिलाकर दिनांक 7.9.2020 को मृतक डालचन्द की रैकी करके टाटा हरियर गाडी मे बैठे अरुण त्यागी व डालचन्द की गोली मार कर हत्या करा दी थी ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रमेश उर्फ बलुसी पुत्र बलवान नि० भगवतीपुर थाना लखमाजरा जिला रोहतक हरियाणा ।
2. निरजंन उर्फ निन्जो पंडित पुत्र प्रवीण कुमार नि० पन्हेडा कला थाना छायासा फरीदाबाद हरियाणा ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त निरंजन उपरोक्त -

1. मु०अ०सं०- 556/2020 धारा- 302/120 बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
2. मु०अ०सं०- 76/2011 धारा148/149/302/307/323/506/120 बी भादवि थाना छायासा फरीदाबाद

## आपराधिक इतिहास अभियुक्त रमेश उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0- 556/2020 धारा- 302/120 बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0- 312/14 धारा- 42 ए प्रिजन एक्ट सदर बल्लभगढ फरीदाबाद ।
3. मु0अ0सं0- 28/12 धारा- 195ए/323/506/120बी भादवि 66 ए आईटी एक्ट छायासा फरीदाबाद ।
4. मु0अ0सं0- 120/11 धारा- 302/120बी भादवि 54/59 शस्त्र अधि0 थाना बेरी झज्जर फरीदाबाद ।
5. मु0अ0सं0- 76/2011 धारा148/149/302/307/323/506/120 बी भादवि थाना छायासा फरीदाबाद ।



## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.10.2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर वामा सारथी के द्वारा पुलिस लाइन में निशुल्क नेत्र जाँच शिविर एवं चश्मा वितरण का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा, पुलिस आयुक्त श्री आलोक सिंह व अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें । शिविर में पुलिस परिवार के सदस्यों, बुजुर्गों व बच्चों ने अपनी आँखों की जांच कराई एवं जांच शिविर के आयोजन पर पुलिस परिवार के सदस्यों द्वारा खुशी जाहिर की गई ।



## प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 पर पुलिस आयुक्त द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई व अधिकारियों/कर्मचारियों को समर्पित होकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की शपथ दिलाई गयी।



